

तुरंत रिलीज के लिए

1 अगस्त को सिटी के साथ इमेंसिपेशन डे का जशन मनाएं

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 जुलाई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको, 1 अगस्त को इमेंसिपेशन डे (Emancipation Day) का जशन मनाने के लिए आमंत्रित कर रही है। इस दिन को, पूरी दुनिया में अफ्रीकी वंश के लोगों की गुलामी के अंत के यादगार दिन के तौर पर मान्यता दी गई है।

इस वर्ष, इमेंसिपेशन पार्क (Emancipation Park) की वर्षगांठ मनाने और इमेंसिपेशन डे को सम्मानित करने के लिए, सिटी दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक, इमेंसिपेशन पार्क में कैरिबियन फेस्टिवल (Caribbean Festival) की मेजबानी कर रही है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले फूड विक्रेताओं, कैरिबियन क्राफ्टर्स मार्केट (Caribbean Crafters Market), लाइव मनोरंजन आदि का आनंद लेंगे।

सिटी ने पहली बार 2020 में, डिक्सी 407 स्पोर्ट्स पार्क (Dixie 407 Sports Park) का नाम बदलकर इमेंसिपेशन पार्क रखते हुए इमेंसिपेशन डे को मान्यता दी थी। इस पार्क में छोटी और बड़ी सॉकर पिचें और क्रिकेट ग्राउंड हैं। इस वर्ष, सिटी प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करती है कि कैरेबियन विरासत और आजादी, ब्रैम्पटन की ब्लैक कम्युनिटी के योगदान को मान्यता देने और कला, संस्कृति, भोजन और कम्युनिटी के साथ शहर के विविध मोजैक का जशन मनाएं।

इस कार्यक्रम के बारे में, Brampton.ca पर अधिक जानकारी प्राप्त करें।

हवाले

“ब्रैम्पटन का मोजैक ही हमारे शहर को इतना बेजोड़ बनाता है, जहां हम सभी के लिए जशन मनाने हेतु कुछ न कुछ है। हम निवासियों को आमंत्रित करते हैं कि 1 अगस्त को, इमेंसिपेशन डे के अवसर पर कला, संस्कृति, भोजन और कम्युनिटी के एक दिन के लिए और कैरिबियन विरासत और आजादी तथा ब्रैम्पटन में ब्लैक कम्युनिटी के योगदानों को मान्यता देने के लिए हमसे जुड़ें। इकट्ठे मिलकर, हम अतीत को याद करेंगे, जब हम लगातार सभी के लिए निष्पक्ष और बराबरी वाले भविष्य के लिए काम कर रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कार्यस्थल और हमारी कम्युनिटी दोनों में, विविधता, बराबरी और भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। हम निवासियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे इमेंसिपेशन डे के कार्यक्रम में हमसे जुड़ें और बातचीत करने तथा ब्रैम्पटन में ब्लैक संस्कृति तथा ब्लैक कम्युनिटी का जशन मनाने में शामिल हों।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“इमेंसिपेशन डे को पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर से अफ्रीकी वंश के लोगों की गुलामी के अंत के यादगार दिन के तौर पर मान्यता दी गई है। चूंकि कानून 1 अगस्त, 1834 को लागू हुआ था, यह अफ्रीकी और ब्लैक अप्रवास पर विचार करने और विरासत व संस्कृति का जशन मनाने का दिन है। यह, विविधता, बराबरी, भागीदारी और एंटी-जातिवाद के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को जारी रखने का अवसर भी प्रदान करता है। इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अपर कैनेडा (ओनटैरियो) ने गुलामी की प्रथा का धीरे-धीरे अंत करने के लिए, 1793 में एक एक्ट पास किया था और अधिकतर कैनेडियन प्रांतों ने, 1834 से पहले गुलामी को रोकते हुए अपने खुद के कानून पास किए थे। अफ्रीकी और कैरिबियन विरासत तथा आजादी का जशन, ब्रैम्पटन की विविधता का जशन मनाने के लिए और कैनेडा में तथा पूरी दुनिया में, गुलामी को खत्म करने के लिए कई लोगों के द्वारा किए गए बलिदानों को सम्मानित करने के लिए हमारे इमेंसिपेशन डे के कार्यक्रम में हमसे जुड़ें।”

- मिशेल बर्न (Michele Byrne), मैनेजर, इक्विटी ऑफिस, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca